



175748 - यदि घर का मुखिया कुर्बानी करने से मना कर दे तो क्या महिला के लिए अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करने की अनुमति है ?

प्रश्न

यदि घर का मालिक बिना किसी कारण के ईदुल-अज्हा में कुर्बानी करने से मना कर दे, तो क्या उसकी पत्नी के लिए जायज़ है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए कहे फिर वह परिवार की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कुर्बानी करे ? और क्या यह पर्याप्त है ? मुझे आशा है कि आप कुरआन और हदीस के प्रकाश में इसे स्पष्ट करेंगे ।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है ।

उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है ।

कुर्बानी इबादतों में से एक इबादत है जिसके प्रति शरीयत ने रूचि दिलाई है, इसके बारे में पुरुष और स्त्री तथा विवाहिता और अविवाहिता के बीच कोई अंतर नहीं किया है । कुर्बानी के बारे में वर्णित नुसूस का सामान्य अर्थ इसी बात को इंगित करता है, बिना किसी चीज़ को विशिष्ट किए और बिना किसी प्रतिबंध के ।

यदि महिला के पास आर्थिक शक्ति है, तो उसके लिए अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से अपने धन से कुर्बानी करना सुन्नत है, विशेषकर यदि घर का मालिक इस अनुष्ठान को अंजाम देने से मना कर दे ।

इब्ने हज़्म रहिमहुल्लाह “अल-मुहल्ला” (6/37) में फरमाते हैं : “कुर्बानी जिस तरह मुक़ीम (निवासी) के लिए है उसी तरह मुसाफ़िर के लिए भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है । इसी तरह महिला के लिए भी है । क्योंकि अल्लाह तआला का कथन है: (وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ) “और भलाई करो ।” [सूरतुल हज्ज :88] और कुर्बानी करना भलाई का काम है । और हमने जिन लोगों का उल्लेख किया है उनमें से हर एक भलाई करने का ज़रूरतमंद है और उसके लिए ऐसा करना वांछित है । तथा इसलिए कि हमने कुर्बानी के बारे में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन उल्लेख किया है और आप अलैहिस्सलाम ने शहरवासी से देहाती को, या मुक़ीम (ग़ैर-यात्री) से मुसाफ़िर (यात्री) को, या महिला से पुरुष को विशिष्ट नहीं किया है । अतः उसमें से किसी चीज़ को विशिष्ट करना बातिल (अमान्य) है, जायज़ नहीं है ।” संक्षेप के साथ समाप्त

हुआ।

तथा “अल-मौसूअतुल फिक्रिहय्या” (5/81) में आया है: “पुरुष होना वाजिब या सुन्नत होने की शर्तों में से नहीं है, तो जिस तरह वह पुरुषों के लिए अनिवार्य है उसी तरह स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि अनिवार्यता या सुन्नियत के प्रमाण सभी को शामिल हैं।” संक्षेप के साथ समाप्त हुआ।

इस आधार पर: यदि घर का मुखिया (मालिक) इस अनुष्ठान को अदा करने से मना कर दे, तो पत्नी के लिए जायज़ है कि वह स्वयं इसको अंजाम दे या किसी दूसरे आदमी के माध्यम से जिसे वह उसे खरीदने और अपनी ओर से उसे ज़बह करने के लिए नियुक्त कर दे, चाहे उसके पति को इसका ज्ञान हो या उसे इसका ज्ञान न हो, चाहे उसकी अनुमति से हो या उसकी अनुमति के बिना हो, क्योंकि कुर्बानी करना सभी के हक़ में सुन्नत है। अतः यदि घर का मालिक कुर्बानी करने से मना कर दे, तो पत्नी कुर्बानी कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: (ऐ लोगो, हर घर वाले पर हर साल एक कुर्बानी अनिवार्य है ..)। इसे अहमद (हदीस संख्या: 17216), अबू दाऊद (हदीस संख्या: 2788) ने रिवायत किया है और अल्बानी ने ‘सहीह अबू दाऊद’ में इसे हसन कहा है।

खतीब शर्बिनी रहिमहुल्लाह ने किताब ‘अल-उद्दह’ के लेखक से उनका यह कथन उल्लेख किया है: “यदि घर वाले अनेक हैं तो यह किफायत (पर्याप्त) के तौर पर सुन्नत है, अगर घर वालों में से किसी एक ने उसे कर दिया तो सभी की तरफ़ से काफी हो जाएगी। नहीं तो प्रति व्यक्ति के हक़ में सुन्नत रहेगी।”

“मुग्नी अल-मुहताज” (6/123) से समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।